

**नकली नोट:** दो साल से फरार आरोपी गिरफ्तार, दो माह पहले ही सूरत आया था



फाइल फोटो

- आरोपी ने दोस्त को 3.93 लाख के नकली नोट भुनाने को दिए थे

नकली नोट मामले में दो साल से फरार आरोपी को एसओजी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार एसओजी की टीम ने खुफिया सूचना के आधार पर वेड रोड स्थित रिलायंस पेट्रोल पंप के पास से आरोपी नागेंद्र पुत्र रामविलास भगत (निवासी- शिवम इंडस्ट्रीज, वेड रोड) को गिरफ्तार किया है।

वर्ष 2018 में आरोपी नागेंद्र ने अपने बहनोई अमितप्रसाद कुशवाहा से 3,93,300 नकली नोट लेकर दोस्त जगदीश वाघाणी को भुनाने के लिए दिया था। अमरोली पुलिस ने अमितप्रसाद कुशवाहा और जगदीश वाघाणी को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि नागेंद्र फरार हो गया था। नागेंद्र के खिलाफ अमरोली थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी।

आरोपी अपने गांव(बिहार) में मजदूरी करने लगा था। दो महीने पहले ही सूरत आया था और लूमस कारखाने में काम कर रहा था। एसओजी की टीम ने खुफिया सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अन्य एक मामले में एसओजी की टीम ने नवसारी बाजार, गोपी तालाब के पास से असद उर्फ परवेज अता सैयद को गिरफ्तार किया है। आरोपी जुए के मामले में एक साल से फरार था।

#### **इंजीनियर से लूट करने वाले दो आरोपी गिरफ्तार, चाकू और ऑटो बरामद**

पूणागाम पुलिस ने दो दिन पहले इंजीनियर से 7500 रुपए लूटने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से रामपुरी चाकू और ऑटो भी बरामद किया है। पुलिस ने गोडादरा में रहने वाले आरोपी अंगद सिंह पुत्र अर्जुन सिंह ठाकुर और विशाल सिंह पुत्र उमाशंकर सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से रामपुरी चाकू, ऑटोरिक्शा, 6 मोबाईल सहित 63,600 रुपए का सामान बरामद किया है। पूछताछ में आरोपियों ने गुनाह कबूल कर लिया है।

Source: <https://www.bhaskar.com/local/gujarat/news/accused-arrested-for-two-years-came-to-surat-only-two-months-ago-128134702.html>